

दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय

गोरखपुर-273001

(नैक प्रत्यायित 'B++' श्रेणी)

सम्बद्ध

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर



☎ : 0551-2334549

☎ : 09792987700

e-mail : dnpggkp@gmail.com

website : www.dnpgcollege.edu.in

पत्रांक : /2022-23

दिनांक 26.12.2022

प्रकाशनार्थ

प्राचार्य उद्बोधन और नवगठित छात्र परिषद अनुमोदन कार्यक्रम

दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के बी०एड० विभाग में प्राचार्य उद्बोधन और नवगठित छात्र परिषद अनुमोदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ ओमप्रकाश सिंह ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इसके पश्चात बी०एड० प्रथम सेमेस्टर की प्रशिक्षु आरतीए पल्लवी एवं अंजलि ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। तत्पश्चात प्राचार्य जी का स्वागत विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ सुभाष चन्द्र एवं बी०एड० छात्र परिषद के अध्यक्ष हर्ष शुक्ल एवं मंत्री अजित गुप्ता ने माल्यार्पण कर किया। स्वागत के इसी क्रम में बी०एड० प्रथम वर्ष के छात्राध्यापिकाओं ने स्वागत गीत 'बहुत देर से पथ पर पलकें पसारे' प्रस्तुत की।

इस अवसर पर प्राचार्य जी ने नवगठित छात्र परिषद को अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त पदाधिकारियों के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त की इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा समस्त अज्ञानता को दूर करने का सशक्त माध्यम है उन्होंने सा विद्या या विमुक्तये की संकल्पना से प्रशिक्षुओं को अवगत कराते हुए कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को सभी बंधनों से मुक्त करे। भारत में शिक्षा के इतिहास पर चर्चा करते हुए उन्होंने मैकाले की शिक्षा पद्धति से लेकर वर्तमान की नई शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के समग्र विकास की दृष्टि से अब तक की सर्वोत्तम शिक्षा नीति है। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की भूमिका की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि किसी भी समाज के उत्थान में एक शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है अब तक जितने भी क्रांति हुए हैं उसके वाहक एक शिक्षक ही रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन बी० एड० प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु रवि प्रकाश और प्रतिभा शुक्ला ने किया इस अवसर पर बी०एड० द्वितीय वर्ष के माधव ने अपने प्रेरणात्मक गीत, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी तथा बी०एड० प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु रोहित पांडे ने निर्गुण श्रृंगार में कोई न परमानेंट तथा विशाल प्रजापति ने देश भक्ति गीत 'वो देश मेरे' प्रस्तुत कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। आभार ज्ञापन बी०एड० विभाग की प्रभारी डॉ गीता सिंह ने किया। इस अवसर पर बी०एड० विभाग के प्राध्यापक डॉ शुभ्रा श्रीवास्तवए श्री राकेश सिंह, श्री प्रदीप यादव एवं श्रीमती शालिनी पारीख उपस्थित रहे।

प्रो.(डॉ.) ओम प्रकाश सिंह)

प्राचार्य